

Roll No.							
----------	--	--	--	--	--	--	--

25251-F1

BCA II SEMESTER [MAIN/ATKT] EXAMINATION
MAY - JUNE 2025
FOUNDATION COURSE
[Environmental Education]

[Max. Marks : 30]**[Time : 45 Minute]**

Note : Student should not write any thing on question paper. Total No. of Questions is 30

All Questions are Multiple Choice Questions. Each question carries 1 Mark.

नोट : विद्यार्थी प्रश्न-पत्र पर कुछ न लिखें। कुल 30 प्रश्न हैं।

प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

Q. 01 Environ means -

- | | |
|-------------|--------------|
| a) Society | b) Home |
| c) Surround | d) Community |

एनविरोन का अर्थ है -

- | | |
|-----------|-----------|
| a) समाज | b) घर |
| c) परिवेश | d) समुदाय |

Q. 02 Transfer of energy from source of plants through a services of organism is known as -

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) Energy cycle | b) Food web |
| c) Biological system | d) Food chain |

पौधों से प्रारम्भ होकर प्राणियों की एक श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानान्तरण कहलाता है -

- | | |
|----------------|-------------------|
| a) ऊर्जा चक्र | b) खाद्य जाल |
| c) जैविक तंत्र | d) खाद्य श्रृंखला |

Q. 03 World environment day is observed on -

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) 10 th June | b) 5 th June |
| c) 22 nd May | d) 16 th June |

विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है -

- | | |
|-----------|-----------|
| a) 10 जून | b) 5 जून |
| c) 22 मई | d) 16 जून |

Q. 04 Indian forest act was implemented in -

भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ -

- | | |
|---------|---------|
| a) 1927 | b) 1857 |
| c) 1974 | d) 1965 |

P.T.O.

- Q. 05** The agenda of Montreal Protocol was -
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| a) Sustainable development | b) To protect ozone layer |
| c) To protect wild life | d) To reduce carbon footprints |
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मुख्य कार्यसूची थी -
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a) धारणीय विकास | b) ओजोन परत की सुरक्षा |
| c) वन्य जीवों की सुरक्षा | d) कार्बन फुटप्रिन्ट्स में कमी |
- Q. 06** Sunderlal Bahuguna is related to -
- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a) Chipko Movement | b) Apico Movement |
| c) Narmada Bachao Andolan | d) None of these |
- सुन्दरलाल बहुगुणा किससे सम्बन्धित है -
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a) चिपको आन्दोलन | b) एपिको आन्दोलन |
| c) नर्मदा बचाओ आन्दोलन | d) उपरोक्त में से कोई नहीं |
- Q. 07** Which health hazard is not concerned with environmental pollution -
- | | |
|-----------|------------------------|
| a) Asthma | b) Some type of cancer |
| c) T.B. | d) Deafness |
- कौनसी स्वास्थ्य समस्या पर्यावरणीय प्रदूषण से सम्बन्धित नहीं है -
- | | |
|--------------------|------------------------|
| a) अस्थमा (दमा) | b) कुछ प्रकार का कैंसर |
| c) टी.बी. (तपेदिक) | d) बहरापन |
- Q. 08** The National bird of India is -
- | | |
|------------------|---------------|
| a) Horn Bill | b) Black Swan |
| c) House sparrow | d) Peacock |
- भारत का राष्ट्रीय पक्षी है -
- | | |
|--------------|-------------|
| a) हार्न बिल | b) काला हंस |
| c) गौरेया | d) मोर |
- Q. 09** Information technology is useful in -
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a) In Environment and Human Health | b) In Industry |
| c) In Business | d) All of these |
- सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है -
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में | b) उद्योगों में |
| c) व्यापार में | d) उपरोक्त सभी में |
- Q. 10** Which of the following is related to human rights -
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) Right for social security | b) Right of Appropriate salary |
| c) Right for Education | d) All of these |

Cont. . . .

इनमें से कौन सा विकल्प मानव अधिकार से सम्बन्धित है –

- a) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- b) उचित वेतन का अधिकार
- c) शिक्षा का अधिकार
- d) उपरोक्त सभी

Q. 11 The example of information technology is -

- a) Print Media
- b) Collection of data related to society
- c) Broadcasting of information
- d) All of the above

सूचना प्रौद्योगिकी का उदाहरण है –

- a) प्रिन्ट मीडिया
- b) समाज से सम्बन्धित आँकड़े एकत्र करना
- c) सूचनाओं का प्रसारण
- d) उपरोक्त सभी

Q. 12 Which type of Pyramid is always upright -

- a) Pyramid of Energy
- b) Pyramid of Number
- c) Pyramid of Biomass
- d) Both (a) and (b)

कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है –

- a) ऊर्जा का पिरामिड
- b) संख्या का पिरामिड
- c) जैव भार का पिरामिड
- d) (a) और (b) दोनों

Q. 13 Zone of atmosphere that lies near the ground -

- a) Stratosphere
- b) Troposphere
- c) Mesosphere
- d) Thermosphere

वायुमण्डल का वह क्षेत्र जो जमीन के करीब होता है –

- a) स्ट्रेटोस्फीयर
- b) ट्रॉपोस्फीयर
- c) मीजोस्फीयर
- d) थर्मोस्फीयर

Q. 14 Phytoplanktons in an ocean are -

- a) Decomposers
- b) Producers
- c) Herbivores
- d) Carnivores

किसी समुद्र में पाये जाने वाले पादप-प्लावक हैं –

- a) अपघटक
- b) उत्पादक
- c) शाकाहारी
- d) मांसाहारी

Q. 15 Ranthambore National Park is situated in -

- a) Kerala
- b) Rajasthan
- c) Assam
- d) Uttar Pradesh

रणथम्बोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है –

- a) केरल में
- b) राजस्थान में
- c) आसाम में
- d) उत्तर प्रदेश में

P.T.O.

Q. 16 Deciduous forest have -

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) Broad Leaved Trees | b) Long Grasses |
| c) Narrow Leaved Trees | d) Spiny shrubs |

पर्णपाती वनों में होते हैं -

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) चौड़े पत्तों वाले वृक्ष | b) लम्बी घास |
| c) संकरे पत्तों वाले वृक्ष | d) कंटीली झाड़ियाँ |

Q. 17 Where the biodiversity is low -

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a) Polar areas | b) Ocean areas |
| c) Tropical areas | d) Rain forests |

जैव विविधता कहाँ पर कम पायी जाती है -

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| a) ध्रुवीय प्रदेशों में | b) समुद्री क्षेत्रों में |
| c) उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में | d) वर्षा वनों में |

Q. 18 Which of the following is a part of Biosphere -

- | | |
|----------------|---------------------|
| a) Hydrosphere | b) Lithosphere |
| c) Atmosphere | d) All of the above |

जैवमण्डल का एक भाग निम्न में से कौन सा है -

- | | |
|--------------|----------------|
| a) जलमण्डल | b) स्थलमण्डल |
| c) वायुमण्डल | d) उपरोक्त सभी |

Q. 19 In exhaustible source of natural resource is -

- | | |
|-----------|---------|
| a) Oil | b) Coal |
| c) Forest | d) Sun |

समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन का स्रोत है -

- | | |
|--------|----------|
| a) तेल | b) कोयला |
| c) वन | d) सूर्य |

Q. 20 Which of the following elements belongs to environment -

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a) Natural element | b) Biotic element |
| c) Abiotic element | d) All of the above |

निम्नलिखित में से कौनसा तत्व पर्यावरण में सम्मिलित है -

- | | |
|-------------------|----------------|
| a) प्राकृतिक तत्व | b) जैविक तत्व |
| c) अजैविक तत्व | d) उपरोक्त सभी |

Cont. . . .

जैविक घटक नहीं है —

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) स्वयंपोषी उत्पादक | b) उपभोक्ता |
| c) अपघटक | d) इनमें से कोई नहीं |

Q. 26 Main reason of world food problem is -

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a) Deforestation | b) Soil erosion |
| c) Population explosion | d) Natural disaster |

विश्व खाद्य समस्या का मूल कारण है —

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a) वनविनाश | b) मृदा अपरदन |
| c) जनसंख्या विस्फोट | d) प्राकृतिक आपदा |

Q. 27 Result of deforestation in hilly areas -

- | | |
|---------------|--------------|
| a) Earthquake | b) Landslide |
| c) Volcano | d) Cyclone |

पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश का परिणाम है —

- | | |
|---------------|------------|
| a) भूकम्प | b) भूस्खलन |
| c) ज्वालामुखी | d) चक्रवात |

Q. 28 The unit of energy measurement is -

- | | |
|---------------|-----------------|
| a) Arge (erg) | b) Joule |
| c) Calorie | d) All of these |

ऊर्जा मापन की इकाई है —

- | | |
|-----------|----------------|
| a) अर्ग | b) जूल |
| c) कैलोरी | d) उपरोक्त सभी |

Q. 29 The environment (Protection) act was pass in which year -

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम किस सन् में पारित हुआ —

- | | |
|---------|---------|
| a) 1981 | b) 1986 |
| c) 1972 | d) 1974 |

Q. 30 Each step of food chain is called -

- | | |
|-------------|------------------|
| a) Producer | b) Trophic level |
| c) Consumer | d) Pyramid |

खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक क्रम कहलाता है —

- | | |
|-------------|--------------|
| a) उत्पादक | b) पोषण स्तर |
| c) उपभोक्ता | d) पिरामिड |

_____○_____